



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 19—मई 25, 2012 (वैसाख 29, 1934)

No. 20]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19—MAY 25, 2012 (VAISAKHA 29, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

| पृष्ठ सं. | विषय-सूची | पृष्ठ सं. |
|---|-----------|--|
| भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं..... | 329 | छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... * |
| भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... | 473 | भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... * |
| भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... | 3 | भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... * |
| भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... | 679 | भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 877 |
| भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... | * | भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... * |
| भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... | * | भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... * |
| भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट..... | * | भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 4873 |
| भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... | * | भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 361 |
| भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को | | भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक..... * |

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

| | Page No. | | Page No. |
|--|-------------|---|-------------|
| PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court | 329 | Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) | * |
| PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court | 473 | PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) | * |
| PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence | 3 | PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence | * |
| PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence | 679 | PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India | 877 |
| PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations | * | PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs | * |
| PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations | * | PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners | * |
| PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills | * | PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies | 4873 |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) | * | PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies | 361 |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the -Ministries of the Government of India (other than the | | PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi | * |

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 मई 2012

प्राक्कलन समिति (2012-2013) के सदस्य

सं. 4/1/ईसी/2012--लोक सभा के निम्नलिखित सदस्य 01 मई, 2012 से शुरू होने वाले और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए चुने गए हैं :--

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर, संसद सदस्य

श्रीमती विजया चक्रवर्ती, संसद सदस्य

श्री एन. एस. वी. चित्तन, संसद सदस्य

श्री खगेन दास, संसद सदस्य

श्री निनोंग ईरींग, संसद सदस्य

डॉ. संजय जायसवाल, संसद सदस्य

श्री प्रहलाद जोशी, संसद सदस्य

श्री बापीराजू कनुमुरु, संसद सदस्य

श्री चंद्रकांत खैरे, संसद सदस्य

डॉ. थोकचोम मैन्था, संसद सदस्य

श्री संजीव गणेश नाईक, संसद सदस्य

श्रीमती रानी नरह, संसद सदस्य

श्रीमती मीनाक्षी नटराजन, संसद सदस्य

श्री प्रबोध पांडा, संसद सदस्य

श्री विनय पाण्डेय, संसद सदस्य

श्री जगदीश सिंह राणा, संसद सदस्य

श्री रायापति सांबासिवा राव, संसद सदस्य

श्री फ्रांसिस्को सारदीना, संसद सदस्य

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, संसद सदस्य

श्री एस. सेम्मलई, संसद सदस्य

श्री अर्जुन चरण सेठी, संसद सदस्य

श्री एम. आई. शानवास, संसद सदस्य

श्री आधि शंकर, संसद सदस्य

श्री जगदीश शर्मा, संसद सदस्य

श्री नीरज शेखर, संसद सदस्य

श्री गणेश सिंह, संसद सदस्य

श्री इज्यराज सिंह, संसद सदस्य

श्री राधा मोहन सिंह, संसद सदस्य

श्री उमा शंकर सिंह, संसद सदस्य

श्रीमती अन्नू टन्डन, संसद सदस्य

अध्यक्ष ने श्री फ्रांसिस्को सारदीना, संसद सदस्य (लोक सभा) को प्राक्कलन समिति (2012-2013) का सभापति नियुक्त किया है

ह./- अपठनीय
निदेशक

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 2012

सं. 18-4/2009-पुस्त. (पार्ट)--मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 20 मार्च, 2012 की आई.डी. सं. 292/2/1/2012-सी.ए.-III के अनुसरण में, एक उच्च स्तरीय समिति अर्थात् "राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन" का, निम्नलिखित संरचना, विचारार्थ विषय और अन्य कार्य-रीतियों सहित गठन किया जाता है :--

1. संरचना

| | |
|---|--------------|
| (i) प्रो. दीपक पेंटल | अध्यक्ष |
| (ii) श्री बी. एस. बासवान | सदस्य |
| (iii) डॉ. संजीव मिश्र | सदस्य |
| (iv) डॉ. एच. के. कौल | सदस्य |
| (v) प्रो. ए. आर. डी. प्रसाद | सदस्य |
| (vi) प्रो. सुब्बैया अरूणाचलम | सदस्य |
| (vii) श्रीमती सुधा मूर्ति | सदस्य |
| (viii) सर रतन टाय न्यास का एक न्यासी | सदस्य |
| (ix) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, एच.आर.डी. मंत्रालय | सदस्य (पदेन) |
| (x) सचिव, संस्कृति मंत्रालय | सदस्य-संयोजक |

मिशन के सभी सदस्य अंशकालिक आधार पर होंगे और वे मिशन से संबद्ध होने के लिए किसी वेतन का दावा नहीं करेंगे।

2. विचारार्थ विषय

प्रस्तावित 'राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन' के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :--

- (क) राष्ट्रीय महत्व के सभी पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र संबंधी विषयों पर भारत सरकार को सलाह देना।
- (ख) "भारत के लिए पुस्तकालय एवं सूचना प्रणालियों संबंधी राष्ट्रीय नीति" को परियोजनाएं और तैयारी की अवधारणा तथा अनुमोदन सहित पुस्तकालय क्षेत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजनाएं और कार्यनीति तैयार करना।
- (ग) सभी पुस्तकालय मामलों विशेष रूप से सार्वजनिक पुस्तकालय मामलों पर राज्य सरकार से विचार-विमर्श करना।
- (घ) पुस्तकालय संग्रहों, सेवाओं, तकनीकी कार्य और अवसंरचना के लिए गुणवत्ता मानदंड सहित मानदंड निर्धारित करना और सभी प्रकार के पुस्तकालयों के लिए इनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित कार्य तंत्र तैयार करना।
- (ङ) पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र के विकास में कार्यरत निगमित क्षेत्र, लोकोपकारी संगठनों तथा द्विपक्षीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भागीदारी को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना।
- (च) पुस्तकालय और सूचना विज्ञान शिक्षा की वर्तमान स्थिति की समीक्षा तथा मूल्यांकन करना और आंतरिक प्रशिक्षण सुविधाओं तथा चिन्हित विषयों का पता लगाने के लिए यूजीसी जैसी एजेंसियों और विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम की समीक्षा और मूल्यांकन करना।
- (छ) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) की पुस्तकालय संबंधी सिफारिशों का प्रभावी कार्यान्वयन और कार्यान्वयन के बाद की स्थिति का प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए स्वामित्वधारी मंत्रालयों जैसे-संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय आदि के साथ समन्वय स्थापित करना।
- (ज) पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र के अन्य राष्ट्रीय स्वामित्वधारकों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई), राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (आरआरआरएलएफ), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर), भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद् (आईसीएसएसआर) तथा ऐसे ही अन्य के साथ समन्वयन स्थापित करना ताकि कार्यान्वयन के बाद की स्थिति की सिफारिशों और प्रबंधन का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
- (झ) सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अन्य देशों की समकक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग करना जिससे भारत का पुस्तकालय एवं सूचना क्षेत्र सुदृढ़ होगा।
- (ञ) संभाषण, प्रयोग, निष्कर्ष और प्रभाव का साक्ष्य उपलब्ध कराकर पक्ष समर्थन और मीडिया के माध्यम से जन समर्थन जुटाना।
- (ट) राज्य पुस्तकालय अधिनियम तैयार करने में राज्य सरकारों (जिनके पास अभी तक पुस्तकालय विधान नहीं है) की सहायता करना।

3. विशेषज्ञों का सह-विकल्प

मिशन अपने कार्यों के प्रबंधन के संबंध में अपने साथ में विशेषज्ञों को शामिल करने में सहयोगी विकल्प का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. मिशन का कार्यकाल

राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

5. संचालन का तरीका

मिशन, वृहद कार्ययोजनाओं को तैयार करने के प्रयोजन से गठित किए जाने वाले कार्य दलों के माध्यम से अपने विचारणीय विषय प्रस्तुत करेगा।

6. प्रबंधन समर्थन

मिशन के लिए प्रबंधन-समर्थन निम्नलिखित रूप में होगा :

राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के लिए प्रशासनिक, संभार-तंत्र, योजना और बजट के कार्यों और संसद से संबंधित कार्यकलापों के उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान नोडल एजेंसी का कार्य करेगा।

7. यात्रा एवं दैनिक भत्ता

राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की बैठक में भाग लेने के लिए गैर-कार्यालयीय सदस्यों को, यात्रा एवं दैनिक भत्ता वर्तमान मानकों के अनुसार दिया जाएगा। बैठक भत्ते का भी भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की गई दरों के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

बी. वेणु
संयुक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2012

संकल्प

सं. ई-11015/07/2009-हिंदी--इस मंत्रालय के दिनांक 19 जनवरी, 2007 के संकल्प संख्या ई-11015/4/2006-हिंदी का अतिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है :--

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. सूचना और प्रसारण मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |
- गैर-सरकारी सदस्य

(संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामांकित)

3. श्री सैफुद्दीन सोज, सांसद (राज्य सभा)
4. श्री राम कृपाल यादव, सांसद (राज्य सभा)
5. श्रीमती संतोष चौधरी, सांसद (लोक सभा)
6. श्रीमती मीना सिंह, सांसद (लोक सभा)

(संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित)

7. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, सांसद (राज्य सभा)
8. प्रो. रामगोपाल यादव, सांसद (राज्य सभा)

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नामित)

9. श्री डी. सत्यनारायण
10. श्री राजेन्द्र पटौरिया
11. डॉ. गजभान मुकुट शर्मा
12. श्री राजेन्द्र जोशी

(केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् द्वारा नामित)

13. डॉ. परमानंद पांचाल

(राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा नामित)

14. श्री कैलाशचंद्र पंत

(राजभाषा विभाग द्वारा नामित)

15. श्री विजय यादव
16. श्री देवेन्द्र भारद्वाज
17. श्री धर्मेन्द्र अदलखा

पदेन सदस्य

18. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
19. सचिव, राजभाषा विभाग और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार, नई दिल्ली।
20. अपर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
21. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
22. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली।
23. संयुक्त सचिव (पी एंड ए), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
सदस्य सचिव
24. संयुक्त सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
25. संयुक्त सचिव (बी.), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
26. निदेशक (राजभाषा), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
27. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती, पीटीआई बिल्डिंग, नई दिल्ली।
28. महानिदेशक (आकाशवाणी), प्रसार भारती, नई दिल्ली।
29. महानिदेशक (दूरदर्शन), प्रसार भारती, नई दिल्ली।
30. महानिदेशक (मीडिया एवं संचार), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली।
31. महानिदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली।
32. निदेशक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।

33. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, मुंबई।

34. निदेशक, फिल्म समारोह निदेशालय, नई दिल्ली।
35. निदेशक, भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली।
36. निदेशक, सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, ई.एम. बाईपास रोड, पोस्ट पंचशायर, कोलकाता-700094।
37. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसलटेंसी (इंडिया) लि., बी-1, सेक्टर-31, नोएडा।
38. अध्यक्ष, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई।
39. निदेशक, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली।
40. पंजीयक, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय, नई दिल्ली।
41. निदेशक, फोटो प्रभाग, नई दिल्ली।
42. अध्यक्ष, भारतीय प्रैस परिषद्, नई दिल्ली।
43. निदेशक, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र।
44. मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग, मुंबई।
45. अध्यक्ष, बाल चित्र समिति, भारत, मुंबई।
46. मुख्य लेखा नियंत्रक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ट्रांजिपिकल बिल्डिंग, II ब्लॉक, कर्नाट सर्कस, नई दिल्ली।
47. निदेशक, गीत और नाटक प्रभाग, नई दिल्ली।
48. निदेशक, गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग, नई दिल्ली।
49. निदेशक, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, पुणे, महाराष्ट्र।

समिति के कार्य, कार्यकाल एवं अन्य सामान्य जानकारी संबंधी ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

खुशीद अहमद गनाइ
संयुक्त सचिव (नीति एवं प्रशासन)

अनुबंध

समिति के कार्य

समिति का कार्य, केन्द्रीय हिंदी समिति और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिंदी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीतियों के अनुसार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/निगमों/बोर्डों/माध्यम एककों आदि के कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में स्थिति की समीक्षा करना और उपयुक्त सलाह देना होगा।

कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा, बशर्ते कि :--

1. जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर, इस समिति के सदस्य नहीं रह सकेंगे।

2. समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य होंगे, और

3. यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र देने के कारण स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

सामान्य

1. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। किन्तु समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी कर सकेगी।

2. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20034/4/86-रा. भा. (क-2) में निहित दिशा निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाएगा।

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 2nd May 2012

Members of the Committee on Estimates (2012-2013)

No. 4/1/EC/2012—The following members of Lok Sabha have been elected to serve on the Committee on Estimates for the term beginning on 1st May, 2012 and ending on 30th April, 2013 :—

Shri E. T. Mohammed Basheer, MP

Smt. Bijoya Chakravarty, MP

Shri N. S. V. Chittan, MP

Shri Khagen Das, MP

Shri Ninong Ering, MP

Dr. Sanjay Jaiswal, MP

Shri Pralhad Joshi, MP

Shri K. Bapi Raju Kanumuru, MP

Shri Chandrakant Khaire, MP

Dr. Thokchom Meinya, MP

Shri Sanjeev Ganesh Naik, MP

Smt. Ranee Narah, MP

Smt. Meenakshi Natrajan, MP

Shri Prabodh Panda, MP

Shri Vinay Pandey, MP

Shri Jagdish Singh Rana, MP

Shri Rayapati Sambasiva Rao, MP

Shri Francisco Sardinha, MP

Smt. Yashodhara Raje Scindia, MP

Shri S. Semmalai, MP

Shri Arjun Charan Sethi, MP

Shri M. I. Shanavas, MP

Shri Adhi Shankar, MP

Shri Jagdish Sharma, MP

Shri Neeraj Shekhar, MP

Shri Ganesh Singh, MP

Shri Ijyaraj Singh, MP

Shri Radha Mohan Singh, MP

Shri Uma Shankar Singh, MP

Smt. Annu Tandon, MP

The Speaker has appointed Shri Francisco Sardinha, MP (LS) as the Chairman of the Committee on Estimates (2012-2013)

Sd/- ILLEGIBLE
Dir.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 4th May 2012

No. 18-4/2009-Lib (Pt.)—In pursuance of Cabinet Secretariat's I.D. No. 292/2/1/2012-CA.III dated 20th March, 2012, a high level Committee i.e. National Mission on Libraries is constituted with the following composition, terms of reference and other modalities :—

1. COMPOSITION

(i) Prof. Deepak Pental, Chairman

(ii) Shri B. S. Baswan, Member

(iii) Dr. Sanjiv Misra, Member

(iv) Dr. H. K. Kaul, Member

(v) Prof. ARD Prasad, Member

(vi) Prof. Subbiah Arunachalam, Member

(vii) Mrs. Sudha Murty, Member

(viii) One of the Trustees of Sir Ratan Tata Trust, Member

(ix) Secretary, Deptt. of Higher Education, Min. of HRD, Member (Ex-Officio)

(x) Secretary, Ministry of Culture, Member-Convenor

All Members of the Mission would be on par-time basis and would not claim any salary for their association with the Mission.

2. TERMS OF REFERENCE

The following are the terms of reference for the proposed National Mission on Libraries :

(a) Advising the government of India on all library and information sector matters of national importance.

(b) preparing long term plans and strategies for development of the library sector, including conceptualization and approval of projects and preparation of a "National Policy on Library and Information Systems for India."

(c) Interacting with State Governments on all library matters, especially on public library matters.

(d) Setting standards, including quality standards, for library collections, services, technical work and infrastructure, and devising in-built mechanisms to ensure compliance for all types of libraries.

(e) Encouraging and promoting partnership with corporate sector, philanthropic organizations, as well as bilateral and international agencies in the development of the library and information sector.

(f) Reviewing and assessing current status of library and information service education and in-service training facilities, and working with agencies such as the UGC and universities to address the identified issues.

- (g) Coordinating with stakeholder Ministries such as the Ministry of Culture, Ministry of Human Resource Development, Ministry of Information Technology, Department of Panchayati Raj etc., to ensure effective implementation of the NKC recommendations and management of the post-implementation scenario.
- (h) Coordination with other national stakeholders of the library and information sector, such as the University Grants Commission (UGC), the All India Council for Technical Education (AICTE), Raja Rammohun Roy Library Foundation (RRRLF), Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), Indian Council for Agricultural Research (ICAR), Indian Council for Medical Research (ICMR), Indian Council for Social Science Research (ICSSR) and so on, to ensure effective implementation of the recommendations and management of the post-implementation scenario.
- (i) Collaborating with counterpart agencies in other countries to explore areas for cooperation which will lead to strengthening of India's library and information sector.
- (j) Securing public support through advocacy and media by providing evidence of delivery, usage, outcomes and impact.
- (k) Helping State Governments (that do not yet have library legislation) in formulating State Library Acts.

3. CO-OPT EXPERTS

The Mission would be free to co-opt experts to associate with it in the management of its tasks.

4. TENURE OF THE MISSION

The tenure of the National Mission on Libraries will be three years.

5. METHOD OF OPERATION

The Mission will address its Terms of Reference through working Groups to be constituted for the purpose of formulating elaborate plans of action.

6. MANAGEMENT SUPPORT

The Management Support to the Mission would be as follows :

Raja Rammohun Ray Library foundation, an autonomous body under the Ministry of Culture will be the nodal agency for the National Mission on Libraries for administrative, logistic, planning and budgeting purposes.

7. TRAVELLING AND DAILY ALLOWANCE

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meeting of the National Mission on Libraries according to the existing norms. Sitting fee will also be paid according to the rates fixed by the government of India from time to time.

V.VENU
Jt. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 30th April 2012

RESOLUTION

No. E-11015/07/2009-Hindi—In supersession of Ministry of Information and Broadcasting's Resolution No. E-11015/4/2006-Hindi, dated the 19th January, 2007, the Government of India have decided to reconstitute the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Information and Broadcasting as follows :—

1. Information and Broadcasting Minister Chairperson
2. Information and Broadcasting State Minister Vice Chairperson

Non-Official Members

(Nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs)

3. Shri Saifuddin Soz, Member of Parliament (Rajya Sabha)
4. Shri Ram Kripal Yadav, Member of Parliament (Rajya Sabha)
5. Smt. Santosh Chaudhary, Member of Parliament (Lok Sabha)
6. Smt. Meena Singh, Member of Parliament (Lok Sabha)

(Nominated by the Committee of Parliament on Official Language)

7. Shri Satyavrat Chaturvedi, Member of Parliament (Rajya Sabha)
8. Prof. Ramgopal Yadav, Member of Parliament (Rajya Sabha)

(Nominated by the Ministry of Information and Broadcasting)

9. Shri D. Satyanarayan
10. Shri Rajendra Patauria
11. Dr. Gajabhan Mukut Sharma
12. Shri Rajendra Joshi

(Nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad)

13. Dr. Parmanand Panchal

(Nominated by Rashtrabhasha Prachar Samiti, Wardha)

14. Shri Kailashchandra Pant

(Nominated by the Department of Official Language)

15. Shri Vijay Yadav
16. Shri Devendra Bharadwaj
17. Shri Dharmendra Adlakha

Ex-Officio Members

18. Secretary,
Ministry of Information and Broadcasting,
New Delhi.
19. Secretary,
Department of Official Language and Hindi,
Adviser to the Government of India,
New Delhi.
20. Additional Secretary,
Ministry of Information and Broadcasting,
New Delhi.
21. Additional Secretary and Financial Adviser,
Ministry of Information and Broadcasting,
New Delhi.
22. Joint Secretary,
Department of Official Language,
New Delhi.
23. Joint Secretary (P&A), Member Secretary
Ministry of Information and Broadcasting,
New Delhi.
24. Joint Secretary (F),
Ministry of Information and Broadcasting,
New Delhi.
25. Joint Secretary (B),
Ministry of Information and Broadcasting,
New Delhi.
26. Director (Official Language),
Ministry of Information and Broadcasting,
New Delhi.
27. Chief Executive Officer,
Prasar Bharati,
P.T.I. Building, New Delhi.
28. Director General (All India Radio),
Prasar Bharati,
New Delhi.
29. Director General (Doordarshan),
Prasar Bharati,
New Delhi.
30. Director General (Media and Communication),
Press Information Bureau,
New Delhi.
31. Director General,
Directorate of Advertising and Visual Publicity,
New Delhi.
32. Director,
Publication Division,
New Delhi.
33. Managing Director,
National Film Development Corporation Limited,
Mumbai.
34. Director,
Directorate of Film Festival,
New Delhi.
35. Director,
Indian Institute of Mass Communication,
New Delhi.
36. Director,
Satyajit Ray Film and Television Institute of India,
E. M. Bypass Road, P. O. Panchshayar,
Kolkata-700094.
37. Chairman-cum-Managing Director,
Broadcasting Engineering Consultancy (India) Ltd.,
B-I, Sector-31, Noida.
38. Chairperson,
Central Board of film Certification,
Mumbai.
39. Director,
Directorate of Field Publicity,
New Delhi.
40. Registrar,
Office of the Registrar of Newspapers of India,
New Delhi.
41. Director,
Photo Division,
New Delhi.
42. Chairman,
Press Council of India,
New Delhi.
43. Director,
Film and Television Institute of India,
Pune (Maharashtra).
44. Chief Producer,
Film Division,
Mumbai (Maharashtra).
45. Chairperson,
Children's Film Society of India,
Mumbai (Maharashtra).
46. Chief Controller of Accounts,
Ministry of Information and Broadcasting,
Tropical Building, II Block,
Connaught Circus,
New Delhi.
47. Director,
Song and Drama Division,
Soochna Bhawan, CGO Complex,
New Delhi.
48. Director,
Research, Reference and Training Division,
Shastri Bhawan,
New Delhi.

49. Director,
National Film Archive of India,
Pune,
Maharashtra.

Details regarding functions, tenure of the Committee and other general information are annexed.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments and Union Territory Administrations, all Ministries/Departments of Government of India, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

KHURSHID AHMED GANAI
Jt. Secy.

ANNEXURE

FUNCTION OF THE COMMITTEE

The function of the Committee will be to review the position and tender advice in regard to progressive use of Hindi for official purpose in the Ministry of Information and Broadcasting and its Attached/Subordinate Offices/Corporations/Boards/Media units etc. in accordance with the policies laid down by the Kendriya Hindi Samiti and the

Department of Official Language (Ministry of Home Affairs) on the subject.

TENURE

The tenure of members of the Committee will ordinarily be three years from the date of constitution of the Committee provided :—

1. Members of the Parliament, who are members of the Committee, shall cease to be members of the Committee as soon as they cease to be Members of the Parliament.
2. The ex-officio members of the Committee shall continue members so long as they hold office by virtue of which they are members of the Committee and
3. If a vacancy arises in the Committee due to resignation or death of a member, the appointee to that vacancy shall hold office for the residual period of the tenure of three years.

GENERAL

1. The Headquarter of the Committee shall be at New Delhi but it may hold its meeting at any other place also.
2. Non-Official members of the Committee will be paid travelling allowance and daily allowance for attending the meeting of the Committee at the rates prescribed as per O. M. No. II/20034/4/86-O.L. (A-2) dated 22.01.1987 of Department of Official Language and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012